

<http://www.upadda.com>
B.Sc. I-CHEMISTRY (PAPER-SECOND), 2013
(ORGANIC CHEMISTRY-I)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 34

Note : Attempt questions from all the Sections.

सभी खण्डों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

SECTION-A

खण्ड— अ

SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS
(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any six questions. Each question carries 2 marks.

(2×6=12)

किन्हीं सात प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।

1. In which of the following compounds delocalized bonding is not possible and why?
निम्न यौगिकों में से किसमें विस्थापित आबन्धता सम्भव नहीं है और क्यों?
 - (a) 1,3-butadiene (1,3-ब्यूटाइडीन)
 - (b) 1,4-pentadiene (1,4-पेन्टाइडीन)
 - (c) 1,3,5-hexatriene (1,3,5-हैक्साट्राइडीन)
 - (d) Benzene (बेन्जीन)
2. What is the difference between Inter-molecular and Intra-molecular hydrogen bonding?
अन्तराअणुक तथा अन्तःअणुक हाइड्रोजन बन्धन में क्या अन्तर है?
3. Give two methods of formation of Carbenes.
कार्बीन के बनने की दो विधियाँ दीजिए।
4. Explain difference between addition reaction and elimination reaction with example.
उदाहरण सहित योगात्मक अभिक्रिया तथा विलोपन अभिक्रिया को समझाइये।
5. Write a note on threo and erythro diastereomers.
थ्रीयो तथा ईरिथ्रो डाइस्टीरियोमर्स पर टिप्पणी लिखिए।
6. Write difference between configuration and conformation with example.
उदाहरण सहित विन्यास तथा संरूपण में अन्तर कीजिए।
7. Write short notes on :
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:
 - (a) Polymerization of alkenes
(ऐल्कीनों का बहुलीकरण)
 - (b) Types of Dienes (डाइडीन के प्रकार)
8. Discuss Corey-House reaction.
कोरे-हाउस अभिक्रिया की विवेचना कीजिए।

9. Explain Hückle's rule of aromaticity with examples.
ऐरोमैटिस्टी का हकल नियम उदाहरण सहित समझाइये।
10. Write notes on :
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएः
- Birch reduction (बर्च अपचयन)
 - B.H.C. (बी.एच.सी.)

SECTION-B

खण्ड — ब

LONG ANSWER TYPE QUESTIONS (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any two questions. Each question carries 10 marks.
($10 \times 2 = 20$)

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

- What is meant by Hybridization? Discuss the hybridization in ethylene and acetylene.
संकरण से क्या तात्पर्य है? ऐथिलीन तथा एसिटिलीन में संकरण की विवेचना कीजिए।
- Write short notes on any four of the following :
निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएः
 - Hyper conjugation (अतिसंयुग्मन)
 - Walden inversion (वाल्डेन प्रतिलोमन)
 - Ozonolysis (ओजोनीकरण)
 - Theory of strainless ring (तनावरहित बलय का सिद्धान्त)
 - Conformation of ethane (ऐथेन के संरूपण)
 - O and p directing groups (O-तथा p-निर्देशित समूह)
- Discuss the mechanism of the following reactions:
निम्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की विवेचना कीजिए।
 - Dehydration of alcohols (एल्कोहल का निर्जलीकरण)
 - Addition of halogen on alkene (एल्कीन पर हैलोजन का योग)
- Write notes on any two of the following :
निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिएः
 - Chemical reactions of alkylbenzene
ऐलिकल बेन्जीन की रासायनिक अभिक्रियायें।
 - Nuclear and side chain reactions of toluene
टॉलूइन में नाभिकीय तथा पार्श्व अभिक्रियायें।
 - Chemical reactions of chlorobenzene
क्लोरो बेन्जीन की रासायनिक अभिक्रियायें।